

सड़क सुरक्षा

स्कूल जाते समय और वहाँ से आते समय सुरक्षित रूप से साथ-साथ चलें

स्कूल से पैदल आते-जाते समय अपने बच्चे के साथ समय बिताना और सुरक्षित तथा स्वस्थ व्यवहार को प्रोत्साहित करना एक अच्छा तरीका है।

पैदल यात्री के रूप में अपने बच्चे को सुरक्षित रखने में मदद के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं:

- सड़क पर सतर्क रहने के बारे में योजना बनाएं, अभ्यास करें और अपने बच्चे से बात करें।
- जब तक आपका बच्चा कम से कम 8 साल का न हो जाए, हमेशा उसका हाथ थामे रहें, क्योंकि उसका ध्यान आसानी से भटक सकता है। बच्चों को खतरों को पहचानने में आपकी मदद की ज़रूरत होती है।
- फिर, कम से कम 10 वर्ष की आयु तक, अपने बच्चे पर बहुत ध्यान से नज़र रखें, तथा सड़क पार करते समय उसका हाथ पकड़ें।
- जहां तक संभव हो, हमेशा पद-यात्री क्रॉसिंग पर चलकर ही सड़क पार करें।
- अपने बच्चे से स्कूल गेट के पास मिलें। कभी भी सड़क के दूसरी तरफ से उन्हें न बुलाएँ।
- समझाएँ कि आपने जिन जगहों को पार करने के लिए चुना है, वे सबसे सुरक्षित क्यों हैं। उनसे बात करें कि उन्हें ड्राइववे, सड़क या कार पार्क पार करने से पहले क्यों **रुकना, देखना, सुनना और सोचना** चाहिए।

सड़क पर सुरक्षित रूप से यात्रा करने की आदतें बच्चे आपसे सीखते हैं और जब वे अकेले यात्रा करने लायक बड़े हो जाएंगे तो वे इन्हें जारी रखेंगे।



सड़क पर बच्चों को सुरक्षित रखने के बारे में अधिक जानकारी के लिए safetytown.com.au पर परिवार (families) सैक्शन देखें।



किंडरगार्टन से लेकर दूसरी कक्षा तक के बच्चों के साथ साझा करने के लिए महत्वपूर्ण सड़क सुरक्षा संदेश

- किसी बड़े का हाथ तब पकड़ें जब:
 - आप सड़क पार करते हैं
 - आप फुटपाथ पर हैं
 - आप कार पार्क में हैं

कक्षा 3 से 6 के बच्चों के साथ साझा करने के लिए मुख्य सड़क सुरक्षा संबंधी संदेश

- सड़क पार करते समय किसी वयस्क का हाथ पकड़ें (कम से कम 10 वर्ष की आयु तक)
- सुरक्षित जगह से सड़क पार करें
- हर बार जब आप सड़क पार करें तो **रुकें! देखें! सुनें! सोचें!** और तब तक चेक करते रहें जब तक कि आप सुरक्षित रूप से सड़क पार न कर लें

रुकें!

फुटपाथ से एक कदम पीछे

देखें!

लगातार दोनों तरफ

सुनें!

आने वाले यातायात की आवाजों के लिए

सोचें!

क्या इसे पार करना सुरक्षित है और सुरक्षित रूप से पार होने तक चेक करते रहें